

खगड़िया से अररिया तक पसरा हुआ था नकली खाद का धंधा



Publish Date: Tue, 16 Nov 2021 06:56 PM (IST) Author: Jagran

जागरण संवाददाता खगड़िया खगड़िया पुलिस लाइन और जिला कृषि कार्यालय से कुछ दूरी पर संसारपुर-मानसी रोड स्थित विद्यार्थी टोला में पप्पू साह के दो मंजिला मकान में चल रहे अवैध और नकली खाद के कारोबार पर से पर्दा उठने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। खगड़िया से यह नकली खाद भागलपुर बांका मुंगेर सहरसा मधेपुरा से लेकर अररिया तक भेजी जाती थी। एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। अब इस रैकेट से कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं इसका तार कहां-कहां से जुड़ा हुआ है इस पर सबकी नजर है।

जागरण संवाददाता, खगड़िया: खगड़िया पुलिस लाइन और जिला कृषि कार्यालय से कुछ दूरी पर संसारपुर-मानसी रोड स्थित विद्यार्थी टोला में पप्पू साह के दो मंजिला मकान में चल रहे अवैध और नकली खाद के कारोबार पर से पर्दा उठने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। खगड़िया से यह नकली खाद भागलपुर, बांका, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा से लेकर अररिया तक भेजी जाती थी। एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। अब इस रैकेट से कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसका तार कहां-कहां से जुड़ा हुआ है, इस पर सबकी नजर है। एक-दो दिनों से नहीं, बल्कि महीनों से यहां नकली खाद का कारोबार फल-फूल रहा था।

जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार के बयान पर स्थानीय थाना में चार ज्ञात और अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। बताते चलें कि ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है।

किसानों के पेट पर हमला

खगड़िया जिला किसान सभा के अध्यक्ष हरेराम चौधरी और उपाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा है कि अवैध खाद का कारोबार महीनों से चल रहा था और अधिकारी नींद में थे। कृषि विभाग और बड़े खाद-बीज विक्रेताओं की भूमिका की जांच हो। किसानों के पेट पर यह हमला है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति खगड़िया के जिला संयोजक प्रभाशंकर सिंह ने कहा है कि यह घनघोर अपराध है। टास्क फोर्स का गठन कर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने मामले के पर्दाफाश को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी की प्रशंसा भी की है। कराई गई है वीडियोग्राफी

मालूम हो कि जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई उक्त गोदाम पर छापेमारी की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। जप्त सामानों की सूची भी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में तैयार की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी जब उक्त गोदाम पर दल-बल के साथ पहुंचे, तो पाया कि एक 22 चक्का ट्रक (रजिस्ट्रेशन नंबर एनएल 01 एबी 2788) से बिना लेबल के 50-50 किलोग्राम के प्लास्टिक बैग को ट्रक से उतारकर गोदाम में रखा जा रहा था। प्लास्टिक के बैग में डीएपी खाद के सशय दिखने वाला नकली खाद था। ट्रक ड्राइवर मु. शफीक आलम, अलवर, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है, परंतु उससे पूछताछ में कोई अहम जानकारी नहीं मिली है। सरगना यूपी का उमेंद्र सिंह भागने में सफल रहा है। सूत्रों के अनुसार उमेंद्र सिंह की गिरफ्तार बाद ही इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश हो पाएगा।

छापेमारी के दौरान गोदाम में अत्यधिक मात्रा में पहले से ही रखा हुआ डीएपी व एमओपी उर्वरक के समान दिखने वाले उत्पाद के साथ-साथ बायो-सह-जैव डीएपी व पोटेश के खाली बैग के बंडल बरामद हुए हैं। गोदाम से डिजिटल तौल

मशीन व बोरा सिलाई का दो मशीन भी पाया गया। पैकिंग मशीन भी जब्त किया गया है। कहने का मतलब यहां पूरी तैयारी के साथ नकली खाद का कारोबार किया जा रहा था। छापेमारी में मौजूद अधिकारी के अनुसार गोदाम से ग्रीन आर्गेनिक एनर्जी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के नाम से निर्गत किए हुए बिक्री रसीद के वाल्यूम के साथ जिप्सम ग्रेन्यूल्स, शक्तिमान बायो फर्टिलाइजर एवं 4जी कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड कीटनाशक आदि के नाम पर नया पैकिंग कर खगड़िया के साथ-साथ भागलपुर, बांका, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं मुंगेर जिला में आपूर्ति करने के संबंध में कागजात भी प्राप्त हुए हैं।

गोदाम से जप्त किए हुए सामानों में डीएपी खाद के सशय दिखने वाला नकली खाद का 50-50 किलोग्राम का 497 बैग, बिना लेबल का सादा भाग में भरा हुआ नकली खाद का 50-50 किलोग्राम का 343 बैग, नकली एमओपी दानेदार के 50-50 किलोग्राम के 750 बैग, शक्तिमान 4जी कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड के 50-50 किलोग्राम के 129 बैग, ग्रीन आर्गेनिक शक्तिमान गोल्ड जाएम के 42 भरे बाल्टी एवं 16 खाली बाल्टी, नकली डीएपी के जमे हुए दानेदार 15 बैग, नकली पोटेश के 25-25 किलोग्राम के 170 बैग, फास्फोरस एसिड के दो भरे हुए व खाली गैलन, प्लास्टिक बैग, तीन बंडल पालीबैग आदि शामिल हैं। डीएम ने कहा: सूचना दें, होगी कठोर कार्रवाई

डीएम आलोक रंजन घोष ने किसानों से अपील की है कि नकली खाद या कीटनाशक के निर्माण व विपणन के संबंध में कोई भी सूचना हो, तो जिला कृषि पदाधिकारी अथवा स्वयं उन्हें अवश्य दें। ताकि कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। डीएम ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे अवैध कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कोट

नकली खाद के कारोबार को लेकर संबंधित थाना में चार को आरोपित करते हुए अज्ञात पर केस दर्ज कराई गई है। स्थानीय स्तर पर सप्लाई की स्पष्ट जानकारी नहीं है। ट्रेस कर रहे हैं।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/khagaria-fertilizer-in-khagaria-22211986.html>

